



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 126 राँची, बुधवार 14 माघ, 1937 (श०)  
3 फरवरी, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

अधिसूचना

29 जनवरी, 2016

संख्या-1/न.वि./मु.स्था./120/2010-571 --नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राज्य के शहरी निकायों में नगर प्रबंधक के पद पर संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त करने हेतु दिनांक 2 फरवरी, 2016 को एफ.एफ.पी. बिल्डिंग, धुर्वा, राँची (निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय का कार्यालय) में साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन किया गया है ।

उक्त हेतु निम्नवत रूप से साक्षात्कार बोर्ड का गठन करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को मनोनीत किया जाता है:-

(1) Board

क्र.	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1	श्री अमीत कुमार, निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय	अध्यक्ष

2	श्री फ्रांसिस जेवियर कुजूर, उप सचिव, जल संसाधन विभाग	अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के सदस्य
3	एम.बी.ए. विषय से संबंधित शिक्षाविद	सदस्य

उपर्युक्त साक्षात्कार बोर्ड में अन्य विभागों से पदाधिकारियों को मनोनित किये जाने के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,  
बी. पी. एल. दास,  
सरकार के अपर सचिव ।

-----